



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 357]

मई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 1976/कार्तिक 10, 1898

No. 357]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 1976/KARTIKA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

## NOTIFICATIONS

## CUSTOMS

New Delhi, the 1st November 1976

**G.S.R. 863(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Bangkok Agreement) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to goods consigned from Member States which have ratified the Bangkok Agreement.

3. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Bangkok Agreement" means the First Agreement on Trade Negotiations among Developing Member Countries of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.

- (b) "exporting Member State" means the Member State from which the goods, in respect of which Special Tariff Concession under the Bangkok Agreement has been claimed, are consigned.
- (c) "Member State" means the country which has ratified the Bangkok Agreement;
- (d) "Special Tariff Concession", in relation to any goods means the exemption granted under the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 431-Customs, dated the 1st November, 1976 for the time being in force from payment of the duty of customs leviable under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (e) words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Customs Act, 1962 (52 of 1962), shall have the meanings, respectively assigned to them in that Act.

**4. Determination of origin.**—No goods shall be deemed to be the produce or manufacture of a Member State unless the proper officer is satisfied that the condition specified in the Schedule to these rules are complied with in relation to such goods.

**5. Claim at the time of importation.**—The owner of the goods shall,

- (a) make a claim, at the time of importation, that the goods are the produce or manufacture of the Member State from which they are imported and such goods are eligible for Special Tariff Concession and
- (b) produce the evidence prescribed in the Schedule to these rules.

#### THE SCHEDULE

(See rules 4 and 5)

1. Goods imported into India from a Member State will be eligible to Special Tariff Concession, subject to the following conditions, namely:—

- (i) where the goods are claimed to have been wholly produced within the territory of an exporting Member State, such goods have been so produced within such territory;
- (ii) where the goods are claimed to have been wholly or partially manufactured within the territory of an exporting Member State,
  - (a) such goods have been so manufactured and the final process of manufacture has been performed within the aforesaid territory;
  - (b) the expenditure on goods produced and labour performed within the territory of the exporting Member State in the manufacture of the goods is not less than fifty per cent of the ex-factory or ex-works cost of the goods in their finished State:

Provided that the goods which comply with the origin requirements in the exporting Member State as originating from any other Member State or Member States and which are used in the exporting Member State as in-puts for the finished goods eligible for preferential treatment in a Member State not being any of the Member States referred to above, shall be considered in the said Member State as a product originating from the exporting Member State where the last process of manufacture of the finished goods had taken place.

*Explanation.*—"Expenditure on goods" means the cost of the manufacturer of the goods at the factory or works including containers.

2. Any one or more of the following operations or processes shall not, by themselves, constitute the final process of manufacture:—

- (a) packing;
- (b) mixing;
- (c) bottling;
- (d) labelling;
- (e) splitting into lots;
- (f) sorting and grading;
- (g) marking;
- (h) putting up into sets.

3. The ex-factory or ex-works cost shall include the cost of containers and other forms of interior packing ordinarily sold with the goods when they are sold in retail or wholesale and the cost of exterior packing but shall not include—

(i) any charges or expenses incurred subsequent to the manufacture of the said goods; and

(ii) any taxes paid in the exporting Member State on the finished good or on the inputs used in the manufacture of the finished goods.

4. When determining the origin of goods, expenditure on goods incurred in the exporting Member State shall include *inter-alia* expenses incurred in respect of energy or fuel or plant and machinery or tools in the production or manufacture of goods within the exporting Member State and of materials used in the maintenance of such plant and machinery and of such tools.

5. (1) Each unit of goods in consignment shall be considered separately.

(2) For purposes of sub-paragraph (1)—

(a) tools, parts and accessories which are imported with the goods and the price of which is included in that of the goods or for which no separate charge is made shall be considered as forming a whole with the goods, provided they constitute the standard equipment customarily included in the sale of goods of that kind;

(b) in cases not falling under clause (a), goods shall be treated as a single unit if they are treated for purposes of assessing duties of customs.

(3) Unassembled or disassembled goods which are imported in more than once consignment because it is not feasible for transport or production reasons to import such goods in a single consignment shall, if the importer so requests, be treated as one article if they are so treated for purposes of assessing duties of customs.

6. (1) A claim that goods shall be accepted as eligible to Special Tariff Concession shall be supported by an appropriate certificate of origin given by a Governmental authority or an authorised body nominated by the exporting Member State and notified to the Government of India.

(2) The form of certificate of origin shall be as prescribed in the Annexure appended to this Schedule.

#### ANNEXURE

[See Paragraph 6(2) of the Schedule]

**Form of Certificate of Origin of goods eligible for preferential treatment.**

[To be given by a Governmental authority or an authorised body nominated by the exporting Member State and to be written, typed or printed in the English language (on invoice of goods)].

1. In the case of goods falling under clause (i) of paragraph 1 of the Schedule to the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Bangkok Agreement) Rules, 1976, the certificate shall be as follows:

"Having been authorised in accordance with the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Bangkok Agreement) Rules, 1976, the undersigned certifies that the goods described in this invoice have been wholly produced manufactured\* within the territory of.....  
(name of the exporting Member State).

Place.....

Signature and Seal

Date.....

11. In the case of goods falling under clause (ii) of paragraph 1 of the Schedule to the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Bangkok Agreement) Rules, 1976, the certificate shall be as follows:

"Having been authorised in accordance with the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Bangkok Agreement) Rules, 1976, the undersigned certifies that:

- (1) the goods described in this invoice have been partially/wholly manufactured in.....(name of the exporting Member State);
- (2) the final process of manufacture of the goods described in this invoice has been performed within.....(name of the exporting Member State) in accordance with the requirements of paragraphs 1 and 2 of the Schedule to the Customs Tariff (Determination of Origin of goods under the Bangkok Agreement) Rules, 1976;
- (3) the expenditure on all goods produced and labour performed within the territory of.....(name of the exporting Member State) in the manufacture of the goods described in this invoice is not less than fifty per cent of the ex-factory or ex-works cost of the goods in their finished state;
- (4) the goods originating from.....[name(s) of the Member State(s)] which have been used in the manufacture of the goods described in this invoice, satisfied the requirements of origin in.....(name of the exporting Member State) as required under the Bangkok Agreement.

Place.....

Signature and Seal

Date.....

[No. 430/F. No. 357/5/76-Cus.1.]

### राजस्व और बंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1976

सा० का० नि० 863(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम सीमा-शुल्क टैरिफ (बैंकाक करार के अधीन मालों में मूल का अवधारण) नियम, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना:—ये नियम बैंकाक करार का अनुसमर्थन करने वाले सदस्य राज्य द्वारा परेषित माल को लागू होंगे।

3. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बैंकाक करार" से एशिया और पैसिफिक के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के विहासशील सदस्य देशों में बीच व्यापार बाधा-हीन विषय पर प्रथम करार अभिप्रेत है;

- (ख) "आयातकर्ता सदस्य राज्य" से वह सदस्य राज्य अभिप्रेत है जिससे वह माल, जिसकी बाबत बँकाक करार के अधीन विशेष टैरिफ छूट का दावा किया गया है, परेषित किया जाता है ;
- (ग) "सदस्य राज्य" से वह देश अभिप्रेत है जो बँकाक करार को पूरा करता है ;
- (घ) किसी माल के सम्बन्ध में "विशेष टैरिफ छूट" से वह छूट अभिप्रेत है जो, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना सं० 431 सीमा-शुल्क तारीख 1 नवम्बर, 1976 के अन्तर्गत, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के संदाय से दी गई हो ;
- (ङ) उन शब्दों और पदों के जो इस नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ है जो अधिनियम में उनके हैं।

4. मूल का अधिधारण .—किसी भी माल को तब तक सदस्य राज्य का उत्पाद या विनिर्माण नहीं समझा जाएगा जब तक समुचित अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे माल के सम्बन्ध में इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है।

#### 5. आयात के समय दावा.—माल का स्वामी,—

- (क) आयात के समय यह दावा करेगा कि माल जिस सदस्य राज्य से आयात किया गया है उसी का उत्पाद या विनिर्माण है तथा ऐसा माल विशेष टैरिफ छूट का पात्र है ; तथा
- (ख) इन नियमों की अनुसूची में विहित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

#### अनुसूची

(नियम 4 और 5 देखिए)

1. सदस्य राज्य से भारत में आयात किए गए माल, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, विशेष टैरिफ छूट का पात्र होंगे, अर्थात् :—

- (i) जहां माल के बारे में यह दावा किया जाता है कि वे पूर्णतया किसी निर्यात करने वाले सदस्य राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर उत्पादित किए गए हैं वहां यह कि ऐसा माल ऐसे राज्यक्षेत्र के भीतर ही उत्पादित किया गया है ;
- (ii) जहां माल के बारे में यह दावा किया जाता है कि वह पूर्णतया या भागतः, निर्यात करने वाले सदस्य राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर विनिर्मित है, वहां यह कि :—
  - (क) ऐसा माल इस प्रकार से उपरोक्त राज्यक्षेत्र के भीतर विनिर्मित हुआ है या उसके विनिर्माण की अन्तिम प्रक्रिया वहां पूरी की गई है,
  - (ख) निर्यात करने वाले सदस्य राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर उत्पादित माल पर तथा आयातित माल के विनिर्माण में उक्त राज्यक्षेत्र के भीतर माल के विनिर्माण पर लगे श्रम पर व्यय तैयार माल के कारखाने पर्यन्त या संक्रम पर्यन्त खर्च के पचास प्रतिशत से कम नहीं है :

यह कि ऐसे माल, जो किसी अन्य सदस्य राज्य परन्तु राज्यों के मूल के हैं किन्तु किसी सदस्य राज्य को मूल सम्बन्धी अनेकाओं अनुसूची हैं तथा जिनका उपयोग द्वितीय वर्गित सदस्य राज्य में जो ऊपर निर्दिष्ट सदस्य राज्य नहीं है ऐसे तैयार माल के लिए निवेश के रूप में किया जाता है जो अन्य सदस्य राज्य में अधिमानता किए जाने के पात्र हैं, उक्त राज्य में ऐसे माने जाएंगे मानो वे उस निर्यातकर्ता सदस्य राज्य के मूल के उत्पाद हैं जहां तैयार माल के विनिर्माण की अन्तिम प्रक्रिया हुई थी।

**स्पष्टीकरण**—“माल पर व्यय” से माल के विनिर्माता को कारखाने या “संक्रम पर्यन्त खर्च” अभिप्रेत है, जिसमें कण्टेनरों पर खर्च भी आता है।

2. निम्नलिखित संक्रियाओं या प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक को अपने आपमें विनिर्माण की अन्तिम प्रक्रिया नहीं समझा जाएगा :

- (क) पैक करता ;
- (ख) मिश्रित क
- (ग) बोतलों में बन्द करना ;
- (घ) लेबिल लगाना ;
- (ङ) लॉटों में विभाजित करना ;
- (च) छाई करना और प्रेजों में बांटना ;
- (छ) विन्हाकन ;
- (ज) सेंट बनाकर रखना।

3. कारखाना-पर्यन्त या संक्रम पर्यन्त खर्च में कण्टेनरों का तथा अन्य अंतरंग पैकिंग का, जिस रूप में माल सामान्यतः तब विक्रय किए जाते हैं जब उनका विक्रय थोक में अथवा खुदरा में किया जाता है, खर्च तथा बाहरी पैकिंग का खर्च भी सम्मिलित होगा, किन्तु उसमें (i) ऐसे प्रभार या व्यय, जो उक्त माल के विनिर्माण के पश्चात् उत्पन्न किए गए हों, सम्मिलित नहीं होंगे ; और (ii) निर्यात करने वाले सदस्य देश में तैयार माल पर या तैयार माल के विनिर्माण में प्रयुक्त निवेशों पर संदेत कोई कर ।

4. माल के मूल का अवधारण करते समय, निर्यात करने वाले सदस्य राज्य द्वारा उपगत “सामग्री पर व्यय” के अन्तर्गत अन्य व्ययों के साथ ऊर्जा या ईंधन या संपन्न और मशीनों या औजारों के सम्बन्ध में व्यय, जो निर्यात करने वाले सदस्य राज्य के भीतर माल के उत्पादन या विनिर्माण में उपगत किए गए हों, तथा ऐसे संपन्न और मशीनों और ऐसे औजारों के अवकरण में प्रयुक्त सामग्री पर व्यय सम्मिलित होंगे।

5. (1) परेषण में सम्मिलित माल के प्रत्येक यूनिट को पृथक् माना जाएगा ।

(2) उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) ऐसे औजार, पुर्जे और सहायक सामान, जो माल के साथ आयात किए जाते हैं और जिनका मूल्य माल के मूल्य में सम्मिलित हो, या जिनके लिए कोई पृथक् प्रभार न हो, माल में ही सम्मिलित समझे जाएंगे। परन्तु यह तब जब वे ऐसे मानक उपस्कर के रूप में हों जो रुद्धितः उस प्रकार के माल के विक्रय में सम्मिलित किए जाते हैं ;

(ख) खण्ड (क) का अधीन आने वाले मामलों में, माल को एकल यूनिट के रूप में माना जाएगा यदि उसे सीमा-शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन के लिए ऐसा माना जाता है।

(3) बिना जुड़े हुए या जुड़े हुए को तोड़ कर रखे हुए ऐसे माल, जिनका आयात एक से अधिक परेषणों में इसलिए किया जाता है क्योंकि परिवहन या उत्पादन के कारणों से ऐसे माल को एक परेषण में आयात करना सम्भव नहीं है, आयातकर्ता के निवेदन पर, एक वस्तु के रूप में माने जा सकते हैं यदि सीमा-शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए उन्हें इस प्रकार से माना जाता हो।

6. (1) माल के विशेष टैरिफ छूट का पात्र होने के दावे के साथ सरकारी प्राधिकारी का, या निर्यात करने वाले सदस्य राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकृत निकाय का तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए उपरोक्त प्राधिकारी या निकाय का मूल के सम्बन्ध में एक समुचित प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(2) मूल के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र का प्ररूप, इस अनुसूची स उपावद्ध उपाबन्ध में विहित के अनुसार होगा।

#### उपाबन्ध

[अनुसूची का पैरा 6(2) देखिए]

I. अधिमानता दिए जाने के पात्र माल के मूल के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र का प्ररूप।

(यह प्रमाणपत्र किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा अथवा निर्यात करने वाले सदस्य राज्य द्वारा नाम निर्दिष्ट प्राधिकृत निकाय द्वारा दिया जाएगा तथा माल के इनबाइस पर अंग्रेजी भाषा में लिखा, टाइप किया या मुद्रित किया जाएगा)

1. सीमा-शुल्क (बैंकाक करार के अधीन माल के मूल का अवधारण) नियम, 1976, की अनुसूची के पैरा 1 के खण्ड (i) के अधीन आने वाले माल की दशा में, प्रमाणपत्र निम्नलिखित रूप में होगा :

“सीमा-शुल्क टैरिफ (बैंकाक करार के अधीन माल के मूल का अवधारण) नियम, 1976, के अनुसरण में प्राधिकृत किए जाने पर, अधोहस्ताक्षरी यह प्रमाणित करता है कि इस इनबाइस में वर्णित माल\* पूर्णतया . . . . . (निर्यात करने वाले सदस्य राज्य का नाम) के राज्य क्षेत्र के भीतर\* उत्पादित किया गया है।

स्थान

हस्ताक्षर तथा मुद्रा

तारीख

\*जो लागू न होता हो उसे काट दीजिए।

II. सीमा-शुल्क टैरिफ (बैंकाक करार के अधीन माल के मूल का अवधारण) नियम, 1976 की अनुसूची के पैरा 1 के खण्ड (ii) के अधीन आने वाले माल की वशा में, प्रमाणपत्र निम्नलिखित रूप में होगा :

“सीमा-शुल्क टैरिफ (बैंकाक करार के अधीन माल के मूल का अवधारण) नियम, 1976 के अनुसरण में प्राधिकृत किए जाने पर, अधोहस्ताक्षरी यह प्रमाणित करता है कि :

- (1) इस इनवाइस में वर्णित माल..... (निर्यात करने वाले सदस्य राज्य का नाम) में भागतः पूर्णतया विनिर्मित है,
- (2) इस इनवाइस में वर्णित माल के विनिर्माण की अन्तिम प्रक्रिया..... (निर्यात करने वाले सदस्य राज्य का नाम) के भीतर पूरी की गई है, सीमा-शुल्क टैरिफ (बैंकाक करार के अधीन माल के मूल का अवधारण) नियम, 1976, की अनुसूची में पैरा 1 और 2 की अपेक्षाओं के अनुसरण में,
- (3) इस इनवाइस में वर्णित तथा ..... (निर्यात करने वाले सदस्य राज्य का नाम) के राज्यक्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी माल पर तथा ऐसे माल के विनिर्माण पर किए गए श्रम पर कुल व्यय अन्तिम रूप दिए गए माल के कारखाने-पर्यन्त या संकर्म-पर्यन्त खर्च के पचास प्रतिशत से कम नहीं है।
- (4) ..... (सदस्य राज्य/राज्यों का/के नाम) के मूल के माल जो इस इनवाइस में वर्णित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त हुए हैं, बैंकाक करार के अधीन यथा अपेक्षित..... (निर्यात करने वाले सदस्य राज्य का नाम) के मूल के होने की अपेक्षा के अनुरूप हैं।

स्थान

हस्ताक्षर और मुद्रा

तारीख

[सं० 430/का० सं० 357/5/76-सी० शु०-I]

**G.S.R. 864(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under the Heading Number of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (3) thereof, when imported into India from Bangladesh or Republic of Korea or Sri Lanka, which has ratified the Bangkok Agreement, from that portion of the duty of customs specified in the said First Schedule as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:—

Provided that the importer proves to the satisfaction of the proper officer of customs that the goods in respect of which the benefit of this exemption is claimed comply with the requirements under the Customs Tariff (Determination of Origin of goods under the Bangkok Agreement) Rules, 1976.

*Explanation.*—In this notification, “Bangkok Agreement” means the First Agreement on Trade Negotiations among Developing Member Countries of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.



TABLE

Sl. No.	Description of goods	Heading Number of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dried fish . . . . .	03.01.03	50 per cent <i>ad valorem</i>
2	Dessicated coconut . . . . .	08.01.13	75 per cent <i>ad valorem</i>
3	Coconut oil (refined) . . . . .	15.07	40 per cent <i>ad valorem</i>
4	Molasses . . . . .	17.03	50 per cent <i>ad valorem</i>
5	Cocoabeans . . . . .	18.01.06	85 per cent <i>ad valorem</i>
6	Natural graphite . . . . .	25.01.32	50 per cent <i>ad valorem</i>
7	Flour-spar and fluorite . . . . .	25.01.32	48 per cent <i>ad valorem</i>
8	Cinnamon leaf oil . . . . .	33.01.06	80 per cent <i>ad valorem</i>
9	Tyres and tubes . . . . .	40.05.16	80 per cent <i>ad valorem</i>
10	Gypsum board plaster . . . . .	68.01.16	85 per cent <i>ad valorem</i>
11	Ferro-silicon . . . . .	73.02	20 per cent <i>ad valorem</i>
12	GI/MS Pipes (seamless tubes) . . . . .	73.17.19	50 per cent <i>ad valorem</i>

[No. 431 F. No. 357/5/76-Cus. I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

सं० का० नि० 864(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उभावद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तथा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1976 की प्रथम अनुसूची के उन शीर्ष मंडयांकों के अन्तर्गत आने वाले मालों को जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तरतम्वन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, तब जब उनका आयात बंगला देश या कोरिया गणतन्त्र या श्रीलंका से, जिन्होंने बौकाक के करारों का अनुसमर्थन किया है, भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क के उतने भाग को जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, छूट देती है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमा-शुल्क के समुचित प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि वे माल जिनके सम्बन्ध में इस छूट का दावा किया गया है सीमा-शुल्क-टैरिफ (बैंकाक करार के अन्तर्गत माल के मूल का अवधारण) नियम, 1976 के अधीन अपेक्षाओं के अनुरूप है।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना में "बैंकाक करार से एशिया तथा पैसिफिक के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के विकासशील सदस्यों के देशों के बीच व्यापारिक वास्तविक विषय पर प्रथम करार अभिप्रेत है।

### सारणी

क्रम सं०	माल का विवरण	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के शीर्ष संख्यांक	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सूखी मछली	03.01/03	मूल्य का 50 प्रतिशत
2.	सूखा नारियल	08.01/13	मूल्य का 75 प्रतिशत
3.	नारियल का तेल (परिष्कृत)	15.07	मूल्य का 40 प्रतिशत
4.	शीरा	17.03	मूल्य का 50 प्रतिशत
5.	कोको की बीन्स	18.01/06	मूल्य का 85 प्रतिशत
6.	प्राकृतिक ग्रेफाइट	25.01/32	मूल्य का 50 प्रतिशत
7.	पन्थोरस्सार और फनोराइट	25.01/32	मूल्य का 48 प्रतिशत
8.	दालचीनी की पत्तियों का तेल	33.01/06	मूल्य का 80 प्रतिशत
9.	टायर और ट्यूब	40.05/16	मूल्य का 80 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	जिप्सम पाट्टियों के खण्ड	68.01/16	मूल्य का 85 प्रतिशत
11.	लोह मिश्र मिलीकॉन	73.02	मूल्य का 20 प्रतिशत
12.	जी आई/एम० एल० पाइप (जोड़ रहित ट्यूब)	73.17/19	मूल्य का 50 प्रतिशत

[सं० 431/का० सं० 357/8/76-सी० प्र०-1]

एम० जयरामन, अवर सचिव

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

